




सत्यमेव जयते

आयुक्त का कार्यालय
Office of the Commissioner
केंद्रीय जीएसटी, अपील अहमदाबाद आयुक्तालय
Central GST, Appeals Ahmedabad Commissionerate
जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद-380015
GST Bhavan, Ambawadi, Ahmedabad-380015
Phone: 079-26305065 - Fax: 079-26305136
E-Mail : commrappl1-cexamd@nic.in
Website : www.cgstappealahmedabad.gov.in



By SPEED POST

DIN:- 20240364SW0000000EE2

(क)	फ़ाइल संख्या / File No.	GAPPL/COM/CEXP/502/2023 / 2467
(ख)	अपील आदेश संख्या और दिनांक / Order-In -Appeal and date	AHM-EXCUS-002-APP-263/23-24 and 28.02.2024
(ग)	पारित किया गया / Passed By	श्री ज्ञानचंद जैन, आयुक्त (अपील) Shri Gyan Chand Jain, Commissioner (Appeals)
(घ)	जारी करने की दिनांक / Date of Issue	07.03.2024
(ङ)	Arising out of Order-In-Original No. 143/DC/D/VM/22-23 dated 30.3.2023 passed by The Deputy Commissioner, CGST, Division-III, Ahmedabad North	
(च)	अपीलकर्ता का नाम और पता / Name and Address of the Appellant	Nirmiti Precision Pvt. Ltd. Plot no. E-562, GIDC Sanand Engineering Estate, Ta. Sanand Ahmedabad-382110

कोई व्यक्ति इस अपील-आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील अथवा पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि ऐसे आदेश के विरुद्ध हो सकता है।

Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way.

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन:-

Revision application to Government of India:

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली: 110001 को की जानी चाहिए :-

A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :-

(क) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानिकार खाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रक्रिया के दौरान हुई हो।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।



In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(घ) अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं 2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतरमूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(3) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम होतो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्नरकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-
Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(2) उक्तलिखित परिच्छेद में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2nd माला, बहुमाली भवन, असरवा, गिरधरनागर, अहमदाबाद-380004।

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd floor, Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad: 380004. In case of appeals other than as mentioned above para.

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.



(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची -1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूलआदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रतिपर रू 6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) एके प्रति अपील के मामले में कर्तव्यमांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के अंतर्गत, शामिल होगा कर्तव्य की मांग (Duty Demanded)।

- (1) खंड (Section) 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (2) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (3) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि।

यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में 'अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994).

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

(6) (i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER-IN-APPEAL

The present appeal has been filed by M/s. Nimriti Precision Pvt. Ltd., Plot No E-562,GIDC, Sanand Engineering Estate, Ta. Sanand, Ahmedabad-382110, (hereinafter referred to as “the appellant”) against Order-in-Original No. 143/DC/D/VM/22-23 dated 30.03.2023 (hereinafter referred to as “the impugned order”) passed by the Deputy Commissioner, Central GST, Division III, Ahmedabad North (hereinafter referred to as “the adjudicating authority”).

2. Briefly stated, the facts of the case are that the appellant are holding Excise Reg. No. AACCN5131CEM003 and STC No AACCN5131CSD003. They were manufacturing of automobile seat parts. During the course of audit, it was noticed that the appellant has availed 100% of Cenvat Credit Rs. 68,750/- in the F.Y. 2016-17 on capital goods against Invoice No 000446 dated 21.05.2017 issued by Pragati Udyog, Unit-II. They were eligible only for 50% of total Cenvat Credit i.e. 34375/-in that financial year as per Rule 4(2)(a) of the Cenvat Credit Rules, 2004 and in the successive F.Y. they would be eligible for the remaining 50% of the Cenvat credit. However, they wrongly availed the cenvat credit of Rs. 34,375/- which was not available to them and contravened the provisions of Rule 4(2)(a) of the Cenvat Credit Rules,2004.

2.1 Subsequently, the appellant were issued Show Cause Notice No. III/SCN-Excise/Nimriti/AC/13/21-22 dated 22.03.2022 demanding wrongly availed cenvat credit amounting to Rs. 34,375/- under provisions of Section 11(4) of the Excise Act read with Rule 14(1)(ii) of the Cenvat Rules. The SCN also proposed recovery of interest under Section 11AA of the of the Excise Act; and imposition of penalty under Section 11AC(1)(c) of the Excise Act.

2.2 The Show Cause Notice was adjudicated vide the impugned order by the adjudicating authority wherein the demand of wrongly availed cenvat credit amounting to Rs. 34,375/- was confirmed under provisions of Section 11(4) of the Excise Act read with Rule 14(1)(ii) of the Cenvat Rules along with Interest under Section 11AA of the of the Excise Act. Further Penalty of Rs. 34,375/- was imposed on the appellant under Section 11AC(1)(c) of the Excise Act read with the Rule 15(2) of the cenvat rules.

3. Being aggrieved with the impugned order passed by the adjudicating authority, the appellant have preferred the present appeal, inter alia, on the following grounds:

- The appellant submitted that they were manufacturer and registered with the Central Excise department. The impugned OIO is issued by the Astd. Commissioner, audit but under section 11A of the Central Excise Act,1944 the jurisdictional central excise officer alone can issue the SCN.
- They stated that the credit is availed prior to permissible time. There is no issue regarding admissibility of the credit. They have paid the applicable interest on the credit early



availed. Now, the demand confirmed vide impugned OIO are not tenable. They made reference of the decision in the case of Guardian Plasticote Ltd vs. Commissioner of C.Ex. ,Daman2008(12) TMI 534-Cestat,Ahmedabad, wherein tribunal held that the demand can be only for interest for the period during which excess 50% credit was availed.

Further,

- The appellant prayed to set aside the impugned OIO and allow their appeal.

4. Personal hearing in the case was held on 15.02.2024. Shri S. J. Vyas, appeared on behalf of the appellant for personal hearing. He reiterated the contents of the written submission and requested to allow their appeal.

5. I have carefully gone through the facts of the case, grounds of appeal, submissions made in the Appeal Memorandum and documents available on record. The issue to be decided in the present appeal is whether the impugned order passed by the adjudicating authority, demanding the excess availed credit along with interest and penalty, in the facts and circumstance of the case, is legal and proper or otherwise.

7. Now, as per submission before me, It is observed that the appellant has availed the 50% of cenvat credit on capital goods of Rs. 34,375/- in the month of May-2017(F.Y.2017-18). The remaining 50% cenvat credit which was to be available to them in the next F.Y 2018-19 under provisions of the Rule 4(2)(a) of Cenvat Credit Rules,2004, was also availed by them in the month of Jun-2017(F.Y. 2017-18).

Further I find that the admissibility of the cenvat credit is not disputed and the appellant has already paid the interest for the period during which excess 50% credit was availed. The Hon'ble CESTAT Ahmedabad in case of Guardian Plasticote Ltd vs. Commissioner of C. Ex. ,Daman 2008(12) TMI 534-Cestat,Ahmedabad, held that the demand can be raised only for interest for the period during which excess 50% credit was availed. The similar view was also taken in case of Yamir Packaging Pvt. Limited Vs. Commissioner of Central Excise & ST, Vadodara 2023(1) TMI 388 by the Hon'ble CESTAT Ahmedabad. As the appellant has already paid the interest for the period during which excess 50% credit was availed, following judicial discipline, I am of the considered view that no demand can be raised to the appellant. Since the demand itself is not sustainable on merits, there does not arise any question of charging interest or imposing penalties in the case.


8. In view of above, I hold that the impugned order passed by the adjudicating authority confirming demand of cenvat credit availed by the appellant during the month of June-2017, is not legal and proper and deserve to be set aside.



9. Accordingly, I set aside the impugned order and allow the appeal filed by the appellant.

10. अपील कर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.



(ज्ञानचंद जैन)

आयुक्त (अपील्स)

Date: 28.02.24

Attested



Manish Kumar
Superintendent(Appeals),
CGST, Ahmedabad

By RPAD / SPEED POST

To,
M/s. Nimriti Precision Pvt. Ltd.,
Plot No E-562,GIDC, Sanand Engineering Estate,
Ta. Sanand, Ahmedabad-382110.

Appellant

Respondent

The Deputy Commissioner,
CGST, Division-III,
Ahmedabad North

Copy to :

- 1) The Principal Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone
- ✓ 2) The Commissioner, CGST, Ahmedabad North
- 3) The Deputy Commissioner, CGST, Division III, Ahmedabad North
- 4) The Assistant Commissioner (HQ System), CGST, Ahmedabad North
(for uploading the OIA)
- 5) Guard File
- 6) PA file